



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 07.02.2021

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 07.02.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त 1. अजीम पुत्र रिजवान निवासी डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ,2. सोहेल पुत्र सलीम निवासी कांच का पुल थाना लिसाडी गेट मेरठ को ग्राम मिलक लच्छी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मु0अ0सं0 12/2021 धारा 363,366 भादवि थाना बिसरख मे वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. अजीम पुत्र रिजवान निवासी डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद
2. सोहेल पुत्र सलीम निवासी कांच का पुल थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 12/2021 धारा 363/366 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

2-थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 03 शातिर ठग गिरफ्तार, कब्जे से 05 गड्डी (100 रूपये के 30 नोट) कुल 3000 रूपये व घटना में प्रयुक्त एक टाटा सफारी गाडी बरामद।

दिनांक 07-02-2021 को थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा 03 शातिर ठग 1.रिजवान चौधरी उर्फ वतन पुत्र फतेजंग निवासी डी-319 डी 555 विनोद नगर ईस्ट दिल्ली पूर्वी दिल्ली भारत 2. शमशेर पुत्र रामफल

निवासी बादढ इसराना पानीपत हरियाणा 3. शेर मौहम्मद पुत्र सिराज अहमद निवासी सहवाजपुर तलवार असमौली सम्भल उ0प्र0 को सेक्टर 37 पार्क से पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 05 गड्डी (100 रूपये के 30 नोट)कुल 3000 रूपये व घटना में प्रयुक्त एक टाटा सफारी गाडी न0 डीएल 2 सीबीबी 0512 बरामद हुये है ।

संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त नकली नोट बनाने का काम करते है और भोले भाले लोगो को एक के बदले दो असली नोट देते है। शुरूआत में विश्वास जमाने के लिए 5000 रूपये लेकर 10000 हजार रूपये तक देते है। चुकि ये नोट असली होते । और मार्केट में चल जाते है। जिससे ग्राहक को विश्वास हो जाता है। और फिर वो लालच में आकर ज्यादा रूपये की मांग करता है। और जब दूसरी बार रूपये देने जाते है। तो इसी तरह से गड्डी बनाकर एक डिब्बे में दिखाते है। और उससे बदले में ज्यादा रूपये ले लेते है। नकली नोटो की गड्डी देकर जल्दी से वहा से चले जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

- 1.रिजवान चौधरी उर्फ वतन पुत्र फतेजंग निवासी डी-319 डी 555 विनोद नगर ईस्ट दिल्ली पूर्वी दिल्ली भारत
2. शमशेर पुत्र रामफल निवासी बादढ इसराना पानीपत हरियाणा
3. शेर मौहम्मद पुत्र सिराज अहमद निवासी सहवाजपुर तलवार असमौली सम्भल उ0प्र0

अभियोग का विवरण-

- 1-मु0अ0स0 52/2021 धारा 420/511 भादवि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा

बरामदगी-

- 1.05 गड्डी (100 रूपये के 30 नोट) कुल 3000 रूपये
- 2.घटना में प्रयुक्त एक टाटा सफारी गाडी न0 डीएल 2 सी बीबी 0512



3- थाना फेस 2 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.02.2021 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त पीयूष पुत्र क्षेत्रपाल निवासी डोरी खुर्जा कस्बा व थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर को एल्डिको कट तिराहा सेक्टर 93 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मु0अ0सं0 56/2021 धारा 363 भादवि0 थाना फेस 2 मे वांछित चल रहा था। अभियुक्त के कब्जे से अपहता नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पीयूष पुत्र क्षेत्रपाल निवासी डोरी खुर्जा कस्बा व थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 56/2021 धारा 363 भादवि0 बनाम पीयूष थाना फेस 2 नोएडा



4- थाना जेवर पुलिस द्वारा पीली धातु को सोना बताकर लोगों के साथ ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलोग्राम पीली धातु बरामद ।

दिनांक 06.02.2021 को थाना जेवर पुलिस द्वारा एक शातिर ठग पूरन पुत्र स्व0 जीवाराम निवासी पुलिस चौकी रेलवे रोड गुजराती भट्ट थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर को सिटी ब्यूटीपार्लर के पास मौहल्ला पुवइयाँ वाली गली कस्बा जहाँगीरपुर से गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 किलोग्राम पीली धातु बरामद की गयी है ।

अपराध करने तरीका-

अभियुक्त लोगों को झाँसा देकर पीली धातु को सोना बताकर बेचने की ठगी करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. पूरन पुत्र स्व0 जीवाराम निवासी पुलिस चौकी रेलवे रोड गुजराती भट्ट थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु.अ.सं. 53/2021 धारा 420 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 1 किलो ग्राम पीली धातु



5- थाना बीटा- 2 द्वारा दोहरे हत्या काण्ड का 72 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, जिसमें 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से बैंक की पास बुक, चैक बुक, आई डी, 13000 रूपये नकद व अवैध शस्त्र आदि बरामद।

दिनांक 07.02.2021 को थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा अभियुक्त देव शर्मा स्व० राम किशोर शर्मा निवासी गाँव सिलौली थाना महगाँव जिला भिंड म०प्र० को ग्राम नवादा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त देव शर्मा द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर अन्य तीनों वांछित अभियुक्त विशन भदौरिया, रोहित व सुभाष की तलाश में सूचना के आधार पर ATS गोल चक्कर के पास पहुच कर पुलिस टीम द्वारा तीनों अभियुक्तों की घेरा बन्दी की तो तीनों बदमाश बाईक छोडकर भागने लगे तथा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी । जबावी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दो बदमाश भागने में कामयाब रहे। पकडे गये घायल बदमाश का नाम विशन सिंह भदौरिया पुत्र लल्लू सिंह भदौरिया निवासी सैनिक कालोनी पिंटू पार्क गोला का मंदिर भिंड ग्वालियर मध्य प्रदेश है ।

घटना का विवरण-

दिनांक 04/05.02.2021 को नरेन्द्र नाथ व उनकी पत्नी श्रीमती सुमन नाथ निवासी आई 24 अल्फा 2 थाना बीटा ग्रे.नो.की उनके घर में घुसकर अज्ञात बदमाशो द्वारा हत्या कर दी गयी थी। इस सम्बन्ध में मृतक नरेन्द्र नाथ की पुत्र वधू श्रीमती निधि नाथ पत्नी रोहित नाथ ने थाना बीटा 2 पर अभियोग मु०अ०स० 63/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया था।

नोट- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा 50 हजार रूपये के नकद ईनाम देने की घोषण की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. देव शर्मा पुत्र राम किशोर शर्मा निवासी ग्राम सिलौली पोस्ट बघोरा सिलौली भिंड बघोरा मध्य प्रदेश
2. विशन सिंह भदौरिया पुत्र लल्लू सिंह भदौरिया निवासी चैमुह थाना अटेर जिला भिंड म०प्र० वर्तमान पता सैनिक कालोनी पिंटू पार्क दिलीप सिंह घोरेया के किराये के मकान थाना गोले का मंदिर जिला ग्वालियर

अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०स० 63/2021 धारा 302 भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०स० 65/2021 धारा 307 भादवि पु०मु० थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर

3. मु0अ0स0 66/2021 धारा 25/27 शस्त्र अधि0 थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. एक पासबुक एचडीएफसी बैंक मृतका सुमन नाथ खाता नं- 02781000003577
2. एक पासबुक पीएनबी बैंक मृतका सुमन नाथ खाता नं- 4476000100010438
3. एक बैंक बुक एचडीएफसी बैंक मृतका सुमन नाथ खाता नं- 02781000003577
4. एक एफ डी एक लाख रूपये की आईसीआईसीआई बैंक नं- 16220125 मृतका सुमन नाथ
5. एक एफ डी तीन लाख रूपये की आईसीआईसीआई बैंक नं- 16220200 मृतका सुमन नाथ
6. एक एफ डी 70893- रूपये आईसीआईसीआई बैंक नं-14637811 मृतका सुमन नाथ
7. एक एफ डी 52748- रूपये आईसीआईसीआई बैंक नं- 14637810 मृतका सुमन नाथ
8. एक डिपोजिट कन्फर्मेशन 48458- रूपये एचडीएफसी बैंक
9. एक डिपोजिट कन्फर्मेशन 48458- रूपये एचडीएफसी बैंक
10. एक निर्वाचन पहचान पत्र- मृतका सुमन नाथ
11. एक कार्ड पंतजलि योगा समिति भारत स्वाभिमान योग शिक्षका मृतका सुमन नाथ
12. एक गले की माला सफेद मोतियों की जिसमें एक मोर पीली धातु का जिसमें सफेद व हरे रंग की पेंटिंग है
13. एक माला मोतियों की चैरी कलर की, जिसमें पीली धातु के मोती आदि लगे हैं
14. दो अँगूठी पीली धातु की, एक टीका पीली धातु का, एक लाकेट पीली धातु का जिस पर सफेद मोती जड़े हैं, एक लाकेट सफेद धातु जिस पर साई बाबा बने हैं
15. 500-500 रूपये के 26 नोट कुल 13000- रूपये
16. एक तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस

#एक BA 3rd की छात्रा गिझोड़ सेक्टर 53 में किराए पर रहती हैं। दिनांक 07.02.2021 को अपना रूम खाली कर समान ई रिक्शा से और खुद स्कूटी से दूसरी कालोनी में शिफ्ट होने जा रही थी। रास्ते में ई- रिक्शा वाला समान लेकर भटक गया, जिसमें इनकी शिक्षा के समस्त प्रमाण पत्र भी थे। यह परेशान और चिंतित स्थिति में कंचनजंगा मार्केट पर मय पुलिस बल चेकिंग कर रहे चौकी प्रभारी गिझोड़ थाना सेक्टर 24 के पास आयीं तथा सम्पूर्ण घटनाक्रम बताया। पुलिस छात्रा को ढांडस बंधाते हुए रिक्शे वाले की तलाश में लग गयी। आधे घण्टे में रिक्शे वाले को सामान सहित तलाश कर छात्रा के सुपुर्द किया। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को वापस पाकर वह बहुत ही खुश हुई व नोएडा पुलिस के मानवीय दृष्टिकोण व त्वरित कार्यवाही के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया।

#पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर मे वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन एवं टीम यंग इंडियन के सौजन्य से पुलिस कर्मियों के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में मशीन के माध्यम से गणित सिखाया गया, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से कलरफुल पेपर के माध्यम से विभिन्न कलाकृतियां बनाना सिखाया गया एवं अन्य एक्टिविटी भी आयोजित कराई गई

वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन व टीम यंग इंडियन (रोहित पूरी पास्ट चेयरमैन ऑफ नोएडा, शिखा चौपड़ा चेयरमैन ऑफ नोएडा, प्रीती अग्रवाल व अन्य सहयोगी) द्वारा पुलिस लाइन गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कर्मियों के उम्र 4, से 12 साल तक के बच्चों के लिए ABACUS व Origami session का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को ABACUS एक मशीन नामक यंत्र जिससे बच्चों को खेलकूद के माध्यम से गणित का ज्ञान दिया गया व कलरफुल पेपर द्वारा विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाना सिखाया गया। इसमें लगभग 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की धर्मपत्नी आकांक्षा सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में लिया भाग, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही है कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को पढ़ाई एवं स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से अग्रणी बनाया जा सके और उनके भविष्य को सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट एवं उनकी पढ़ाई में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से आगे भी वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। अतिथिगण में श्रीमती शक्ति सिंह पत्नी अपर पुलिस आयुक्त श्री लव कुमार, श्रीमती संगीता सिंह पत्नी एडीसीपी श्री रणविजय, श्रीमती आकांशा सिंह पत्नी एसीपी रजनीश कुमार तथा अन्य गणमान्य महिलाएं उपस्थित रही।

